

(b) Net banking and UPI

संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :

(क) पेंजी योजनाएं

(ख) नेट बैंकिंग और यूपीआई

[This question paper contains 8 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 4413

H

Unique Paper Code : 6967000008

Name of the Paper : Financial Literacy

Name of the Course : VAC

Semester : IV

Duration : 2 Hours 30 min Maximum Marks : 70
(Part A=30 & Part B=40 marks)

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.
3. Use of Simple Calculator is allowed.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।

4413

2

2. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।
3. साधारण कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति है।

PART A

(30 marks)

1. This Part carries 4 questions in total.

इस भाग में कुल 4 प्रश्न हैं।

2. Question No. 1 is compulsory.

प्रथम प्रश्न अनिवार्य है।

3. Attempt any 2 out of the remaining 3 questions.

शेष तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

4. All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

4413

7

Basic Salary	Rs. 10,00,000
मूल वेतन	
Dearness allowance	Rs. 4,00,000
महंगाई भत्ता	
Contribution to P.P.F.	Rs. 1,00,000
पी.पी.एफ. में योगदान	
Tuition fees paid	Rs. 25,000
ट्यूशन शुल्क	
Life insurance Premium paid	Rs. 25,000
जीवन बिमा प्रीमियम भुगतान	
Interest on fixed deposit received	Rs. 15,000
सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	
Saving Bank Interest received	Rs. 30,000
बचत बैंक में प्राप्त ब्याज	

5. Write short notes on : (5×2=10)

(a) Ponzi schemes

P.T.O.

3. From the following information calculate the expected risk and return of ASB Limited : (10)

निम्नलिखित जानकारी से एसबी लिमिटेड के अपेक्षित जोखिम और रिटर्न की गणना करें :

State/ अवस्था	Probability/ प्रायिकता	Return/ रिटर्न
Growth / वृद्धि	0.30	60%
Stagnant / अवरुद्ध	0.20	30%
Recession / मंदी	0.50	-20%

4. Compute the total income and tax liability of the assessee Ms. Noor under the old tax regime and new tax regime for the financial year 2022-23 : (10)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था के तहत निर्धारित सुश्री नूर की कुल आय और कर देनदारी की गणना करें :

1. Write short notes on any **two** of the following :

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए :

(a) Financial Discipline

वित्तीय अनुशासन

(b) Time Value of Money

पैसे का समय मूल्य

(c) Permanent Account Number (PAN) (5×2=10)

स्थायी खाता संख्या (पैन)

2. What is meant by digitization of financial transactions? Explain in brief the concept of Unified Payment Interface (UPI). (10)

वित्तीय लेनदेन के डिजिटलीकरण से क्या तात्पर्य है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) की अवधारणा को संक्षेप में समझाएं।

4413

4

3. Explain the need and importance of buying a health-insurance policy. (10)

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने की आवश्यकता और महत्व बताएं।

4. From the following information related to Mr. Aditya aged 51 years who is resident in India, compute his total tax liability under both old tax regime and new tax regime for financial year 2023-24: (10)

भारत में निवासी 51 वर्ष के श्री आदित्य से संबंधित निम्नलिखित जानकारी से, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था दोनों के तहत उनकी कुल कर देनदारी की गणना कीजिए :

Gross Total Income	Rs. 24,85,0.00
Investment in Term Deposit of ICICI Bank for a period of 6 Years	Rs. 1,70,000
Medical Insurance Premium paid on the Policy of Dependent Children	Rs. 30,000
Interest on Saving Account in ICICI Bank	Rs. 14,000

4413

5

PART B

(40 marks)

1. Answer any **Four** Questions.

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

2. Each question carries **10** marks.

प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

1. Discuss how an investor can protect himself against the online frauds. (10)

एक निवेशक ऑनलाइन धोखाधड़ी से स्वयं को कैसे बचा सकता है? चर्चा कीजिए।

2. What is a Mutual Fund? Explain the role of mutual funds in personal investment planning. (10)

म्यूचुअल फंड क्या है? व्यक्तिगत निवेश योजना में म्यूचुअल फंड की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

P.T.O.